

# Num

## Chapter 6

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: 1  
 और-बोला यहोवा से- मूसा कहते-हुए  
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H1696](#)

यहोवा ने मूसा से कहा,

2 וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אֶת-אִשְׁתּוֹ כִּי יִפְלֹא 2  
 बोल से- इस्राएल-के पुत्रों-से और-कह और-उनसे पुरुष या- स्त्री अद्भुत-करे  
[H0413](#) [H1696](#) [H3478](#) [H0559](#) [H0413](#) [H0376](#) [H0802](#) [H6381](#)

לְהַזְכִּיר לְנָהָר מַנְרַת נָזִיר לְהַזְכִּיר לְנָהָר מַנְרַת 3  
 याहोवा-के-लिए अलग-रहने-के-लिए नाजीर-की मन्त्रत मन्त्रत-मानने-के-लिए  
[H3068](#) [H5139](#) [H5088](#) [H5087](#)

“ये बातें इस्राएल के लोगों से कहो: कोई पुरुष या स्त्री कुछ समय के लिए किन्हीं अन्य लोगों से अलग रहना चाह सकता है। इस अलगाव का उद्देश्य यह हो कि वह व्यक्ति पूरी तरह अपने को उस समय के लिए यहोवा को समर्पित कर सके। वह व्यक्ति नाज़ीर कहलाएगा।

3 מִיַּיִן וּשְׂכָר וְיַיִר אֶל-מִיַּיִן וּשְׂכָר וְיַיִר 3  
 दाखरस-से और-मदिरा-से अलग-रहे और-मदिरा-से अलग-रहे और-मदिरा-से  
[H3196](#) [H7941](#) [H3196](#) [H2558](#) [H3196](#) [H2558](#) [H3196](#) [H7941](#) [H3196](#)

מִשְׁרַת עֲנָבִים לֹא יִשְׁתֶּה וְעֲנָבִים לֹא יִשְׁתֶּה 4  
 रस अंगूरों-का पीए नहीं और-अंगूर पीए नहीं  
[H0398](#) [H3808](#) [H3002](#) [H3892](#) [H6025](#) [H8354](#) [H3808](#) [H6025](#) [H4952](#)

उस काल में व्यक्ति को कोई दाखमधु या कोई अधिक नशीली चीज़ नहीं पीनी चाहिए। व्यक्ति को सिरका जो दाखमधु से बना हो या किसी अधिक नशीले पेय को नहीं पीना चाहिए। उस व्यक्ति को अंगूर का रस नहीं पीना चाहिए और न ही अंगूर या किशमिश खाने चाहिए।

4 כָּל-יְמֵי נַזְרֹו מְכַלֵּי אִשָּׁרָה מְכַלֵּי 4  
 सब दिनों नाजीर-अपनी किसी-भी जो बने  
[H3605](#) [H5145](#) [H3605](#) [H5145](#) [H3605](#) [H5145](#)

יָגוּ לֹא יֹאכְלוּ: 5  
 छिलकों नहीं खाए  
[H0398](#) [H3808](#) [H2085](#)

उस अलगाव के विशेष काल में उस व्यक्ति को अंगूर से बनी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। उस व्यक्ति को अंगूर का बीज या छिलका भी नहीं खाना चाहिए।

5 כָּל-יְמֵי נַזְרֹו מְכַלֵּי אִשָּׁרָה מְכַלֵּי 5  
 सब-दिनों नाजीर-अपनी मन्त्रत-की दिनों सब-दिनों  
[H3117](#) [H3605](#) [H3117](#) [H5088](#) [H3117](#) [H3605](#) [H3117](#) [H5088](#) [H3117](#) [H3605](#)

אִשָּׁרָה-יִיָּר לִיהוָה קָדָשׁ יִיָּר לִיהוָה 6  
 जिनमें-अलग-रहे यहोवा-के-लिए पवित्र यहोवा-के-लिए अलग-रहे जिनमें-अलग-रहे  
[H8181](#) [H6545](#) [H1431](#) [H1961](#) [H6918](#) [H3068](#)

“उस अलगाव के काल में उस व्यक्ति को अपने बाल नहीं काटने चाहिए। उस व्यक्ति को उस समय तक पवित्र रहना चाहिए जब तक अलगाव का समय समाप्त न हो। उसे अपने बालों को लम्बे होने देना चाहिए। उस व्यक्ति के बाल, परमेस्वर को दिए गये उसके वचन का एक विशेष भाग है। वह उन बालों को परमेस्वर के लिए भेंट के रूप में देगा। इसलिए वह व्यक्ति अपने बालों को तब तक लम्बा होने देगा जब तक अलगाव का समय समाप्त न होगा।

6 כָּל-יְמֵי נַזְרֹו מְכַלֵּי אִשָּׁרָה מְכַלֵּי 6  
 सब-दिनों अलग-रहने-के दिनों सब-दिनों  
[H3117](#) [H3605](#) [H3117](#) [H3605](#) [H3117](#) [H3605](#) [H3117](#) [H3605](#) [H3117](#) [H3605](#)

“इस अलगाव के काल में नाज़ीर को किसी शव के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने को पूरी तरह यहोवा को समर्पित कर दिया है।

יִטְמֵא अशुद्ध-हो	לֹא- नहीं-	וְלִאֲחֵתוֹ और-बहन-अपनी-के-लिए	לְאָחִיו भाई-अपने-के-लिए	וְלֵאֲמוֹ और-माता-अपनी-के-लिए	לְאָבִיו पिता-अपने-के-लिए	7
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0269</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H0001</a>		
	עַל- सिर-उसके	רֹאשׁוֹ: पर-	אֱלֹהֵיו परमेश्वर-अपने-की	נָזִיר नाज़ीर	כִּי क्योंकि	בְּמָתָם मरने-में-उनके
			<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H5145</a>	<a href="#">H4194</a>	לָהֶם उनके-लिए

यदि उसके अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई या अपनी बहन भी मरें तो भी उसे उनको छूना नहीं चाहिए। यह उसे अपवित्र करेगा। उसे यह दिखाना चाहिए कि उसे अलग किया गया है और अपने को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित कर चुका है।

לְיָהוּוָה: यहोवा-के-लिए	הוּא वह	קָדָשׁ पवित्र-है	נָזִירוֹ नाज़ीर-उसकी	יָמָיו दिनों	כָּל- सब	8
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H6918</a>	<a href="#">H5145</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3605</a>	

जिस पूरे काल में वह अलग किया गया, वह पूरी तरह अपने को यहोवा को समर्पित किए हुए है।

וְגִלָּח और-मुड़ाए	נָזִירוֹ नाज़ीर-अपनी	רֹאשׁוֹ सिर	וְטָמֵא और-अशुद्ध-करे	פְּתָאֵם अकस्मात	בְּפִתְעָ अचानक	עָלָיו उस-पर	מָתָה मरा-हुआ	יָמוֹת मरे	וְכִי- और-जब-	9
<a href="#">H1548</a>	<a href="#">H5145</a>			<a href="#">H6597</a>	<a href="#">H6621</a>		<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H4191</a>		
				וְגִלָּחָנוּ: मुड़ाए	הַשְּׁבִיעִי सातवें	בַּיּוֹם दिन-में	טְהַרְתּוֹ शुद्धि-अपनी	בַּיּוֹם दिन-में	רֹאשׁוֹ सिर-अपना	
				<a href="#">H1548</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2893</a>	<a href="#">H3117</a>		

यह संभव है कि नाज़ीर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो और वह दूसरा व्यक्ति अचानक मर जाए। यदि नाज़ीर मरे व्यक्ति को छुएगा तो वह अपवित्र हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो नाज़ीर को सिर से अपने बाल कटवा लेना चाहिए। वे बाल उसके विशेष दिए गए वचन के भाग थे। उसे अपने बालों को सातवें दिन काटना चाहिए क्योंकि उस दिन वह पवित्र किया जाता है।

הַכֹּהֵן याजक-के	אֶל- के-पास-	יוֹנָה कबूतर-के	בְּנֵי बच्चे	שְׁנֵי दो	אוֹ या	תְּרִים पंडुकियाँ	שְׁתֵּי दो	יָבֵא लाए	הַשְּׁמִינִי आठवें	וּבַיּוֹם और-दिन-में	10
<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3123</a>		<a href="#">H8147</a>		<a href="#">H8449</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H8066</a>	<a href="#">H3117</a>	
								מוֹעֵד: मिलाप-के	אֶת- तंबू	פְּתָח द्वार	אֶל- के-पास-
								<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H6607</a>	<a href="#">H0413</a>

तब आठवें दिन उसे दो फाख्ते या कबूतर के दो बच्चे याजक के पास लाने चाहिए। उसे याजक को उन्हें मिलापवाले तम्बू के द्वार पर देना चाहिए।

מֵאִשֵּׁה इससे-जो	עָלָיו उसके-लिए	וְכִפֵּר और-प्रायश्चित-करे	לְעֹלָה होमबलि-के-लिए	וְאֶחָד और-एक	לְחֻטָּאת पापबलि-के-लिए	אֶחָד एक	הַכֹּהֵן याजक	וְעָשָׂה और-करे	11
				<a href="#">H0259</a>		<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3548</a>		
		הַהוּא: उस	בַּיּוֹם दिन-में	רֹאשׁוֹ सिर-उसके	אֶת- को-	וְקָדָשׁ और-पवित्र-करे	הַנֶּפֶשׁ प्राण-के-विषय-में	עַל- पर-	קָטָא पाप-किया
		<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6942</a>	<a href="#">H5315</a>			<a href="#">H2398</a>

तब याजक एक को पापबलि के रूप में भेंट करेगा। वह दूसरे को होमबलि के रूप में भेंट करेगा। यह होमबलि उस व्यक्ति द्वारा किये गये पाप के लिए भुगतान होगी। उसने पाप किया क्योंकि वह शव के पास था। उस समय वह व्यक्ति फिर वचन देगा कि सिर के बालों को परमेश्वर को भेंट करेगा।

שְׁנָתוֹ वर्ष-अपने-का	בֶּן- पुत्र-	כִּבְשׁ मेमना	וְהָבִיא और-लाए	נָזִירוֹ नाज़ीर-अपनी	יָמָיו दिनों	אֶת- को-	לְיָהוּוָה यहोवा-के-लिए	וְהָזִיר और-अलग-रखे	12
<a href="#">H8141</a>		<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H5145</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>		
		נָזִירוֹ: नाज़ीर-उसकी	טָמֵא अशुद्ध-हुई	כִּי क्योंकि	יָפְלוּ व्यर्थ-होंगे	הָרִאשִׁימִים पहले	וְהַיּוֹמִים और-दिन	לְדֹשָׁבִלִים दोषबलि-के-लिए	
		<a href="#">H5145</a>			<a href="#">H5307</a>	<a href="#">H7223</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0817</a>	

इसका यह तात्पर्य हुआ कि उस व्यक्ति को फिर अलगाव के दूसरे समय के लिए अपने आपको यहोवा को समर्पित कर देना चाहिए। उस व्यक्ति को एक वर्ष का एक मेढ़ा लाना चाहिए। वह इसे पाप के लिए भेंट के रूप में देगा। उसके अलगाव के सभी दिन भुला दिये जाते हैं। उस व्यक्ति को नये अलगाव के समय का आरम्भ करना होगा। यह अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि उसने अलगाव के प्रथम काल में एक शव का स्पर्श किया।

פְּתַח	אֶל-	אֹתוֹ	יָבִיא	נָזְרוּ	יָמֵי	מִלֵּאת	בְּיוֹם	הַנְּזִיר	תּוֹרַת	וְזֹאת	13
द्वार	के-पास-	उसको	लाया-जाए	नाजीर-अपनी	दिनों-के	पूरे-होने	दिन-में	नाजीर-की	व्यवस्था	और-यह-है	
<a href="#">H6607</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H5145</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H5139</a>	<a href="#">H8451</a>	<a href="#">H2063</a>	

אֶהָל מוֹעֵד :  
मिलाप-के तंबू  
[H4150](#) [H0168](#)

“जब व्यक्ति के अलगाव का समय पूरा हो तो उसे मिलापवाले तंबू के द्वार पर जाना चाहिए।

אֶחָד	תְּמִים	שָׁנָתוֹ	בֶּן-	כֶּבֶשׂ	לַיהוָה	קָרְבָּנוֹ	אֶת-	וְהִקְרִיב	14
एक	निर्दोष	वर्ष-अपने-का	पुत्र-	मेमना	यहोवा-के-लिए	भेंट-अपनी	को-	और-निकट-लाए	
<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H8549</a>	<a href="#">H8141</a>		<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7126</a>	

תְּמִים	אֶחָד	וְאֵיל-	לְחֹטְאָת	תְּמִימָה	שָׁנָתָהּ	בַּת-	אֶחָת	וּכְבֹּשֶׁה	לְעֹלָה
निर्दोष	एक	और-मेढ़ा-	पापबलि-के-लिए	निर्दोष	वर्ष-अपने-की	पुत्री-	एक	और-भेड़ी	होमबलि-के-लिए
<a href="#">H8549</a>	<a href="#">H0259</a>			<a href="#">H8549</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3535</a>	

לְשִׁלְמִים :  
मेलबलि-के-लिए  
[H8002](#)

वहाँ वह अपनी भेंट यहोवा को देगा। उसकी भेंट होनी चाहिए: होमबलि के लिए बिना दोष का एक वर्ष का एक मेढ़ा पापबलि के लिए बिना दोष की एक वर्ष की एक मादा भेड़, मेलबलि के लिए बिना दोष का एक नर भेड़,

מִשְׁחִים	מִצֹּת	וּרְקִיקוֹ	בַּשֶּׁמֶן	בְּלוֹלֹת	חֲלֹת	סֹלֶת	מִצֹּת	וְסֹל	15
चुपड़ी-हुई	अखमीरी-रोटियों-की	और-पपड़ी	तेल-से	सनी-हुई	रोटियाँ	मैदा	अखमीरी-रोटियों-की	और-टोकरी	
<a href="#">H4886</a>	<a href="#">H4682</a>	<a href="#">H7550</a>	<a href="#">H8081</a>		<a href="#">H2471</a>	<a href="#">H5560</a>	<a href="#">H4682</a>	<a href="#">H5536</a>	

בַּשֶּׁמֶן וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵיהֶם :  
और-अर्घ-उनके और-अन्नबलि-उनकी तेल-से  
[H5262](#) [H4503](#) [H8081](#)

अखमीरी रोटियों की एक टोकरी, (तेल से मिश्रित अच्छे आटे के फुलके इन “फुलकों” पर तेल लगाना चाहिए।) अन्य भेंट तथा पेय भेंट जो इन भेंटों का एक भाग है।

עֹלָתוֹ :	וְאֶת-	חֹטְאָתוֹ	אֶת-	וְעָשָׂה	יְהוָה	לְפָנַי	הַכֹּהֵן	וְהִקְרִיב	16
होमबलि-उसकी	और-को-	पापबलि-उसकी	को-	और-करे	यहोवा-के	सामने	याजक	और-निकट-लाए	
	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H7126</a>	

“तब याजक इन चीजों को यहोवा को देगा। याजक पापबलि और होमबलि चढ़ाएगा।

וְעָשָׂה	הַמִּצֹּת	סֹל	עַל	לַיהוָה	שִׁלְמִים	זָבַח	יַעֲשֶׂה	הָאֵיל	וְאֶת-	17
और-करे	अखमीरी-रोटियों-की	टोकरी	साथ	यहोवा-के-लिए	मेलबलि-की	बलिदान	करे	मेढ़ा	और-को-	
	<a href="#">H4682</a>	<a href="#">H5536</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8002</a>	<a href="#">H2077</a>			<a href="#">H0853</a>	

הַכֹּהֵן וְאֶת- מִנְחָתוֹ אֶת- :  
अर्घ-उसका और-को- अन्नबलि-उसकी को- याजक  
[H5262](#) [H0853](#) [H4503](#) [H0853](#) [H3548](#)

याजक रोटियों की टोकरी यहोवा को देगा। तब वह यहोवा की मेलबलि के रूप में नर भेड़ को मारेगा। वह यहोवा को अन्नबलि और पेय भेंट के साथ इसे देगा।

רֹאשׁ	שֶׁעַר	אֶת-	וּלְקַח	נָזְרוּ	רֹאשׁ	אֶת-	מוֹעֵד	אֶהָל	פְּתַח	הַנְּזִיר	וְנִלְחַח	18
सिर	केश	को-	और-ले	नाजीर-अपनी	सिर	को-	मिलाप-के	तंबू	द्वार-पर	नाजीर	और-मुंडाए	
	<a href="#">H8181</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H5145</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H6607</a>	<a href="#">H5139</a>	<a href="#">H1548</a>	

הַשִּׁלְמִים : זָבַח תַּחַת אֲשֶׁר- עַל- הָאֵשׁ :  
मेलबलि-का बलिदान-का नीचे जो- आग पर- और-दे नाजीर-अपनी  
[H8002](#) [H2077](#) [H8478](#) [H0784](#) [H5414](#) [H5145](#)

नाजीर को मिलापवाले तंबू के द्वार पर जाना चाहिए। वहाँ उसे अपने बाल कटवाने चाहिए जिन्हें उसने यहोवा के लिए बढ़ाया था। उन बालों को मेलबलि के रूप में दी गई बलि के नीचे जल रही आग में डाला जाना चाहिए।

וְלָקַח	הַכֹּהֵן	אֶת-	הַזֶּרַע	בְּשֵׁלֶה	מִן-	הָאֵלֶּיךָ	וְחֵלֶת	מִצָּה	אֶחָת	מִן-	הַסֹּלֶת	19
और-ले	याजक	को-	बाजू	पका-हुआ	से-	में	और-रोटी	अखमीरी	एक	से-	टोकरी	
<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2220</a>	<a href="#">H1311</a>			<a href="#">H2471</a>	<a href="#">H4682</a>	<a href="#">H0259</a>		<a href="#">H5536</a>	
וּרְקִיק	מִצָּה	אֶחָד	וְנָתַן	עַל-	כַּפֵּי	הַנְּזִיר	אֶחָד	הַתְּנַלְחָה	אֶת-	נְזִירֹ:		
और-पपड़ी	अखमीरी	एक	और-दे	पर-	हथेलियों	नाजीर-के	बाद-में	मुड़े-जाने-के-बाद	को-	नाजीर-उसकी		
<a href="#">H7550</a>	<a href="#">H4682</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H3709</a>	<a href="#">H5139</a>		<a href="#">H1548</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5145</a>		

“जब नाज़ीर अपने बालों को काट चकेगा तो याजक उसे नर मेढ़ का एक पका हुआ कंधा और टोकरी से एक बड़ा और एक छोटा ‘फुलका’ देगा। ये दोनों अखमीरी फुलके होंगे।

וְהִנִּיחַ	אוֹתָם	וְהַכֹּהֵן	הַתְּנוּפָה	לְפָנַי	וְהָיָה	קָדָשׁ	הוא	לְכֹהֵן	עַל		20
और-हिलाए	उन्हें	याजक	हिलानेवाली-बलि	सामने	यहोवा-के	पवित्र-है	वह	याजक-के-लिए	साथ		
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H8573</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H1931</a>		<a href="#">H3548</a>			
חֹנָה	הַתְּנוּפָה	וְעַל	שֹׁק	הַתְּרוּמָה	וְאֶחָד	יֵשָׁתָה	הַנְּזִיר	יָיִן:			
छाती	हिलानेवाली-बलि-की	और-साथ	जाँघ	उठाई-हुई-भेंट-की	और-बाद-में	पीए	नाजीर	दाखरस			
<a href="#">H2373</a>	<a href="#">H8573</a>		<a href="#">H7785</a>	<a href="#">H8641</a>		<a href="#">H8354</a>	<a href="#">H5139</a>	<a href="#">H3196</a>			

तब याजक इन चीजों को यहोवा के सामने उतोलित करेगा। यह एक उतोलन भेंट है। ये चीजें पवित्र हैं और याजक की हैं। नर भेड़ की छाती और जांघ भी यहोवा के सामने उतोलित किये जाएंगे। ये चीजें भी याजक की हैं। इसके बाद नाज़ीर दाखमधु पी सकता है।

זָאת	תּוֹרַת	הַנְּזִיר	אֲשֶׁר	יָדָר	קָרְבָּנוֹ	לַיהוָה	עַל-	נְזִירוֹ	מִלִּבָּד	אֲשֶׁר-	21
यह-है	व्यवस्था	नाजीर-की	जो	माने	भेंट-उसकी	यहोवा-के-लिए	पर-	नाजीर-उसकी	अलग-से	जो-	
<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H8451</a>	<a href="#">H5139</a>		<a href="#">H5087</a>		<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H5145</a>	<a href="#">H0905</a>		
תְּשִׁיב	יָדוֹ	כַּפֵּי	נְדָרוֹ	אֲשֶׁר	יָדָר	כֵּן	יַעֲשֶׂה	עַל	תּוֹרַת	נְזִירוֹ:	
पहुँचे	हाथ-उसका	अनुसार	मन्नत-अपनी	जो	माने	ऐसे	करे	पर	व्यवस्था-के	नाजीर-उसकी	
<a href="#">H5381</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H5088</a>		<a href="#">H5087</a>				<a href="#">H8451</a>	<a href="#">H5145</a>	

פ

“यह नियम उन व्यक्तियों के लिए है जो नाजीर होने का वचन लेते हैं। उस व्यक्ति को यहोवा को ये सभी भेंट देनी चाहिए यदि कोई व्यक्ति अधिक देने का वचन देता है तो उसे अपने वचन का पालन करना चाहिए। लेकिन उसे कम से कम वह सभी चीज़ें देनी चाहिए जो नाज़ीर के नियम में लिखी हैं।

וַיְדַבֵּר	יְהוָה	אֶל-	מֹשֶׁה	לְאַמֵּר:		22
और-बोला	यहोवा	से-	मूसा	कहते-हुए		
<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0559</a>		

यहोवा ने मूसा से कहा,

דַּבֵּר	אֶל-	אֶחָד	וְאֶל-	בְּנֵי	לְאַמֵּר	כֹּה	תְּבַרְכוּ	אֶת-	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	23
बोल	से-	हारून	और-से-	पुत्रों-उसके	कहते-हुए	इस-प्रकार	आशीष-दो	को-	पुत्रों-से	इस्राएल-के	
<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H3478</a>	
אָמַר	לָהֶם:	ס									
कहते-हुए	उनसे	—									
<a href="#">H0559</a>											

“हारून और उसके पुत्रों से कहो। इस्राएल के लोगों को आशीर्वाद देने का ढंग यह है। उन्हें कहना चाहिए:

יְבַרְכֶה	יְהוָה	וַיִּשְׁמְרֶהָ:	ס		24
आशीष-दे	यहोवा	और-रक्षा-करे-तुझे	—		
<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8104</a>			

‘यहोवा तुम पर कृपा करे और तुम्हारी रक्षा करे।

יָאָר	וְיָהוּה	פָּנָיו	אֵלַיךְ	וַיַּחַמְדֶּהָ:	ס	25
चमकाए	यहोवा	मुख-अपना	तुझ-पर	और-अनुग्रह-करे-तुझ-पर	—	
<a href="#">H0215</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0413</a>			

